

**\*प्रेस विज्ञप्ति\***

**\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज, दिनांक जनवरी 05, 2023\***

**!!□ आज दिनांक 05.01.2023 को पुलिस अधीक्षक महराजगंज श्री डॉ० कौस्तुभ के निर्देशन में जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!**

**\*1.\* "मिशन शक्ति अभियान" के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरुक ।**

**\*2.\* महराजगंज पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम, वित्तीय प्रतिष्ठान आदि की सघन चेकिंग कर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गई ।**

**\*3.\* यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 128 वाहनों का चालान किया गया।

**\*4.\* पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठके कर सौहार्दपूर्ण, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने हेतु पराली न जलाने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी । तथा समस्त थानों प्रभारियों को उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।**

**\*5. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151, तथा धारा-107/116 सीआरपीसी में 39 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

**\*6. पैदल गश्त अभियान-\*** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके ।

**\*7. अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\***1. अभियुक्त रामसूरत पुत्र बिहारी नि0 ग्राम सेमरहवा थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से करीब 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 02/23 धारा 60(1) अबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

**\*8. गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्तगण 1. अमरनाथ प्रजापति उर्फ घुरियाहे पुत्र रामजी नि0 ग्राम पिपरा सोहट, 2. फेकू पुत्र खिचड़ी नि0 ग्राम जंगल गुलरिहा थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-निल/23 धारा ¾ गुण्डा एक्ट अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

**\*9.कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त नाम पता अज्ञात के कब्जे से 05 बोरी यूरिया भारतीय खाद व दो अदद मोटर साइकिल नं0 UP56AH5177, UP55R1086 बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/23 धारा 111 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया ।

**\*10. गैंगेस्टर अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्तगण 1. अनिल कुमार यादव पुत्र राजाराम यादव नि0 फुलवरिया थाना फरेन्दा, महाराजगंज 2. सोनू कुमार गुप्ता पुत्र आत्माराम प्रसाद गुप्ता नि0 वार्ड नं0 11 वाल्मिकी नगर थाना सोनौली,महाराजगंज 3. हरदीप सिंह पुत्र कुलदीप सिंह सा0 वार्ड नं0 07 नगर पालिका सिद्धार्थनगर थाना भैरहवा जिला रुपन्देही नेपाल राष्ट्र के विरूद्ध थाना स्थानीय मु0अ0सं0 06/23 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया ।

**\*थाना सिन्दुरिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्तगण 1. संतोष गोंड पुत्र छविलाल गोंड, 2. प्रेमसागर प्रजापति पुत्र रामअधार प्रजापति, 3. गंगेश कन्नौजिया पुत्र प्रहलाद कन्नौजिया निवासी ग्राम विशुनपुरा मोजरी थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के विरूद्ध थाना स्थानीय मु0अ0सं0 03/23 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया ।

**\*11. आर्म्स अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त राहुल प्रजापति पुत्र बाबूलाल नि0 डिगुरी टोला शितलापुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से एक अदद रामपुरी चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 08/23 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

\*12. \*विवेचनाओं का निस्तारण-\* पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 18 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

\*13. \*जनपद में 04/05.01.2023 को विभिन्न अपराधों में कुल- 15 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।\*

\*14.आदेश-\* महाराजगंज पुलिस द्वारा शान्ति सुरक्षा, कानून व्यवस्था अपराध नियन्त्रण को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त किया जायेगा ।